



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 16 मार्च, 2021

फाल्गुन 25, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 301/वि०स०/संसदीय/35(सं)-2021

लखनऊ, 4 मार्च, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 4 मार्च, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

कतिपय  
अधिनियमितियों का  
निरसन

2—नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्वारा निरसित की जाती हैं।

व्यावृत्ति

3—इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,—

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रभा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;

(ङ) लेखा—परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा—परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न किये गये हों।

## अनुसूची

(धारा 2 देखें)

### निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	संयुक्त प्रान्त कपास नाशि कीट नियंत्रण अधिनियम, 1936 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1936)
2	संयुक्त प्रान्त प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1938 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1938)
3	उत्तर प्रदेश औषधि नियन्त्रण (संशोधन और अधिकार जारी रखने का) अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1951)
4	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1952)
5	उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1953)
6	उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1953)
7	उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1954)
8	उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1957 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1958)

9	दण्ड विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1961)
10	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1962)
11	उत्तर प्रदेश बांट तथा मांप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1963)
12	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1963)
13	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1964)
14	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1965)
15	उत्तर प्रदेश बांट तथा मांप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1966)
16	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा विधिमाम्यकरण), अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1970)
17	उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1970)
18	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1970)
19	उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1971)
20	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1972)
21	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1972)
22	उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1973)
23	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1974)
24	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1974)
25	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1976)
26	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1978)
27	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 24 सन् 1978)
28	उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1978)
29	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1979)
30	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1982)
31	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1982)
32	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1983)
33	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1984)
34	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1985)
35	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1985)

36	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1985)
37	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन ) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1986)
38	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1987)
39	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन ), अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1989)
40	उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन ) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1989)
41	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1990)
42	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1990)
43	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1991)
44	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1992)
45	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1995)
46	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1995)
47	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1997)
48	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन ) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1998)
49	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1998)
50	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1999)
51	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1999)
52	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1999)
53	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2000)
54	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2000)
55	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2000)
56	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 2000)
57	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2001)
58	उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2001)
59	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2006)

60	उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2009)
61	महा प्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2011)

### उद्देश्य और कारण

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक आवधिक उपाय है जिनके द्वारा उन अधिनियमितियों, जो प्रवर्तन में नहीं रह गयी हैं या अप्रचलित हो गयी हैं, का निरसन किया जाता है। राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर अप्रचलित हो चुके तथा पृथक-पृथक अधिनियमों के रूप में प्रतिधारित किये जाने हेतु अनावश्यक हो चुके अधिनियमितियों का, प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बंध में सहमति प्राप्त करने के पश्चात् राज्य विधान मंडल के प्रथम सत्र, 2021 में विधेयक पुरःस्थापित करके, निरसन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

ब्रजेश पाठक,  
मंत्री,  
विधायी।

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR  
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 215/XC-S-1-21-25S-2021  
Dated Lucknow, March 16, 2021

#### NOTIFICATION

#### **MISCELLANEOUS**

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Nirsan Vidheyak, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 4, 2021.

THE UTTAR PRADESH REPEALING BILL, 2021

A  
BILL

*to repeal certain enactments.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Repealing Act, 2021.

Short title

Repeal of certain  
enactments

Savings

2. The enactments specified in the Schedule below are hereby repealed.

3. The repeal by this Act of any enactment shall not,—

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

(d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force;

(e) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

#### SCHEDULE

(See section 2)

#### Acts being repealed

1	The United Provinces Cotton Pest Control Act, 1936 (Uttar Pradesh Act, 1936 ) (U.P. Act no. 11 of 1936)
2	The United Provinces First Offenders Probation Act, 1938 (U.P. Act no. 6 of 1938)
3	The Uttar Pradesh Drugs Control (Amendment and Continuance of Powers) Act, 1951 (U.P. Act no. 7 of 1951)
4	The Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Amendment) Act, 1952 (U.P. Act no. 27 of 1952)
5	The Uttar Pradesh Fire Service (Amendment) Act, 1952 (U.P. Act no. 1 of 1953)
6	The Uttar Pradesh Drugs (Control) (Continuance of Powers) (Amendment) Act, 1952 (U.P. Act no. 4 of 1953)
7	The Uttar Pradesh Drugs (Control) (Amendment) Act, 1953 (U.P. Act no. 2 of 1954)
8	The Uttar Pradesh First Offenders' Probation (Amendment) Act, 1957 (U.P. Act no. 8 of 1958)
9	The Criminal Laws (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1961 (U.P. Act no. 31 of 1961)
10	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1962 (U.P. Act no. 23 of 1962)
11	The Uttar Pradesh Bat Tatha Map (Prachalan) (Sanshodhan) Adhiniyam , 1962 (U.P. Act no. 1 of 1963)
12	The Uttar Pradesh Bikri Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1962 (U.P. Act no. 3 of 1963)

13	The Uttar Pradesh Bikri Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 14 of 1964)
14	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1965 (U.P. Act no. 19 of 1965)
15	The Uttar Pradesh Bat Tatha Map (Prachalan) (Sanshodhan) Adhiniyam , 1966 (U.P. Act no. 15 of 1966)
16	The Uttar Pradesh Excise (Amendment and Validation) Act, 1970 (U.P. Act no. 7 of 1970)
17	The Uttar Pradesh Excise (Second Amendment) Act, 1970 (U.P. Act no. 23 of 1970)
18	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1970 (U.P. Act no. 33 of 1970)
19	The Uttar Pradesh Excise (Third Amendment) Act, 1970 (U.P. Act no. 4 of 1971)
20	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1972 (U.P. Act no. 6 of 1972)
21	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1972 (U.P. Act no. 30 of 1972)
22	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1973 (U.P. Act no. 13 of 1973)
23	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1974 (U.P. Act no. 18 of 1974)
24	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1974 (U.P. Act no. 21 of 1974)
25	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) (Re-enactment and Validation) Act, 1976 (U.P. Act no. 5 of 1976)
26	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1978 (U.P. Act no.9 of 1978)
27	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1978 (U.P. Act no. 24 of 1978)
28	The Uttar Pradesh Excise (Second Amendment) Act, 1978 (U.P. Act no. 30 of 1978)
29	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no.13 of 1979)
30	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1982 (U.P. Act no. 1 of 1982)
31	The Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1982 (U.P. Act no.12 of 1982)
32	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1983 (U.P. Act no. 23 of 1983)
33	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1984 (U.P. Act no. 23 of 1984)
34	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1985 (U.P. Act no. 7 of 1985)
35	The Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1985 (U.P. Act no.11 of 1985)
36	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1985 (U.P. Act no. 29 of 1985)
37	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1986 (U.P. Act no.19 of 1986)
38	The Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1987 (U.P. Act no.13 of 1987)
39	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1989 (U.P. Act no. 5 of 1989)
40	The Uttar Pradesh Excise Rules (Amendment) Act, 1989 (U.P. Act no. 20 of 1989)
41	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1990 (U.P. Act no. 1 of 1990)
42	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1990 (U.P. Act no. 14 of 1990)
43	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1991 (U.P. Act no. 13 of 1991)
44	The Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Amendment) Act, 1992 (U.P. Act no. 14 of 1992)

45	The Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Amendment) Act, 1995 (U.P. Act no. 3 of 1995)
46	The Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Second Amendment) Act, 1995 (U.P. Act no. 28 of 1995)
47	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1997 (U.P. Act no. 16 of 1997)
48	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1998 (U.P. Act no. 7 of 1998)
49	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1998 (U.P. Act no. 14 of 1998)
50	The Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Amendment) Act, 1999 (U.P. Act no. 12 of 1999)
51	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1999 (U.P. Act no. 22 of 1999)
52	The Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1999 (U.P. Act no. 26 of 1999)
53	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 3 of 2000)
54	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 13 of 2000)
55	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Second Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 16 of 2000)
56	The Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Third Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 33 of 2000)
57	The Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 15 of 2001)
58	The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 16 of 2001)
59	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 31 of 2006)
60	The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 25 of 2009)
61	The Administrator-General Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2010 (U.P. Act no. 18 of 2011)

-----  
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is one of those periodical measures by which enactments which have ceased to be in force or have become obsolete, are repealed. On recommendation of the State Law Commission, it has been decided to repeal enactments which have become redundant or the retention whereof as separate Acts is unnecessary, by introducing a Bill in the first session 2021 of the State Legislature after obtaining the consent of the Administrative Departments related therewith.

The Uttar Pradesh Repealing Bill, 2021 is introduced accordingly.

BRAJESH PATHAK,

*Mantri,*

*Vidhai.*

-----  
By order,

J. P. SINGH-II,

*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 796 राजपत्र-2021-(1693)-599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।